

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 521]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2021 — आश्विन 12, शक 1943

संस्कृति विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 सितम्बर 2021

### संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-03/2020/30/सं.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा, “छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद गठित करने के विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 1-03/2020/30/सं, दिनांक 27-10-2020” में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना के कंडिका 03 के बिन्दु क्रमांक 3.1, सरल क्रमांक 07 में साहित्य अकादमी में अध्यक्ष अंतःस्थापित किया जाता है एवं 08 सदस्य के स्थान पर 09 प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.1 में मानदेय राशि रु. 75,000/- प्रतिमाह के स्थान पर राशि रु. 1,00,000/- प्रतिमाह प्रतिस्थापित किया जाता है एवं वाहन भत्ते के रूप में राशि रु. 50,000/- प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.
3. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.1 में अधोलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाता है—  
“राज्य की समग्र साहित्यिक परंपरा और गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है. इस अकादमी के अध्यक्ष के लिए मानदेय राशि रु. 1,00,000/- प्रतिमाह होगा. अध्यक्ष के कार्यों के लिए सहयोगी संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रदाय किया जावेगा. वाहन भत्ते के रूप में रुपये 50,000/-प्रतिमाह निर्धारित होगा.
4. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.2 में वाहन भत्ते के रूप में राशि रु. 50,000/- प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.
5. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.3 में प्रथम वाक्य की निरंतरता में अधोलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाता है—

“एवं लोक कलाओं से संबंधित साहित्य को संकलित/प्रकाशित करना लोक कला मंडलियों की सूची तैयार कर पंजीयन करना, मंडलियों को वाद्ययंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, विकासखंड स्तरीय जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना, उत्कृष्ट कलाकारों को मानदेय उपलब्ध कराना, लोक कला के प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना, अन्य राज्यों के लोक कलाओं पर राज्य की लोक कलाओं के साथ आदान प्रदान करना, लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करना, राज्य के पुरातत्वीय एवं सांस्कृतिक धरोहरों वाले स्थानों पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन करना, लोक कलाओं के संरक्षण/संवर्धन हेतु शासन को सुझाव देना.”

6. उक्त कंडिका 3.2.3 में वाहन भत्ते के रूप में राशि रु. 50,000/-प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है।
7. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.6 में मानदेय राशि रु. 75,000/- के स्थान पर राशि रु. 1,00,000/-प्रतिस्थापित किया जाता है एवं वाहन भत्ते के रूप में राशि रु. 50,000/- प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है।
8. तदनुसार अधिसूचना के अंत में 'प्रभागों में होने वाले व्यय अनुमानिक' निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

**प्रभागों में होने वाले व्यय हेतु अनुमानिक**

क्र.	प्रभाग	मद	राशि	कुल
01	साहित्य अकादमी अध्यक्ष	मानदेय वाहन भत्ता	$1,00,000 \times 12 = 12,00,000$ $50,000 \times 12 = 6,00,000$	12 लाख (मानदेय) 6 लाख (वाहन)
	(क) पदुमलाल पुन्नलाल बख्शीपीठ (ख) श्रीकांत वर्मा पीठ (ग) गुरु घासीदास शोध पीठ	मानदेय अतिरिक्त भत्ता किराया, रख रखाव	$1,00,000 \times 3 \times 12 = 36,00,000$ $15,000 \times 3 \times 12 = 540,000$ $10,000 \times 3 \times 12 = 360,000$	45 लाख
02	कला अकादमी	मानदेय अतिरिक्त व्यय वाहन भत्ता	$1,00,000 \times 12 = 12,00,000$ विभागीय बजट से $50,000 \times 12 = 6,00,000$	12 लाख (मानदेय) 6 लाख (वाहन)
03	आदिवासी एवं लोक कला अकादमी	मानदेय अतिरिक्त व्यय वाहन भत्ता	$1,00,000 \times 12 = 12,00,000$ विभागीय बजट से $50,000 \times 12 = 6,00,000$	12 लाख (मानदेय) 6 लाख (वाहन)
04	छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम	मानदेय अतिरिक्त व्यय	$1,00,000 \times 12 = 12,00,000$ विभागीय बजट से	12 लाख (मानदेय)
05	छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग	मानदेय (अध्यक्ष) अतिरिक्त व्यय	$1,00,000 \times 12 = 12,00,000$ विभागीय बजट से	12 लाख (मानदेय)
06	छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी	मानदेय (अध्यक्ष) अतिरिक्त भत्ता किराया, रख रखाव वाहन भत्ता	$100,000 \times 12 = 12,00,000$ $15,000 \times 2 \times 12 = 3,60,000$ $10,000 \times 2 \times 12 = 2,40,000$ विभागीय बजट से $50,000 \times 12 = 6,00,000$	18 लाख 6 लाख (वाहन)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्बलगन पी., सचिव.